



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2398/9-1-2020-71 टी0ए0-20

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-496

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2788(1)टी/9-1-44-टी(1)-70, दिनांक 26 मई, 1972 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत ऊगू, जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2788(1)टी/9-1-44-टी(1)-70, दिनांक 26 मई, 1972 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन

के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-‘क’ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत ऊगू जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत ऊगू जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
1	ऊगू ग्रामीण	उत्तर	1957, 1993, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012, 2013/3368, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2085, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2095/3353, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2099/2, 2100, 2101, 2102, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2105, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2141, 2142, 2155/1, 2155/2, 2155/3, 2156, 2157, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2221, 2222, 2223, 2224, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2307, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2445, 2446, 2446/3356, 2447, 2448, 2449, 2452
2	गंगा प्रसाद खेड़ा, ऊगू ग्रामीण	दक्षिण	1514, 1515, 1516, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681/1, 2681/2, 2681/3, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2702/3315, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2711/3380, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2724/3387, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, 2736, 2737, 2746, 2747, 2748, 2748/3365, 2749, 2749/3366, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2790/3314, 2790/3316, 2791, 2791/3317, 2792, 2793, 2794, 2795, 2808, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2820/3318, 2821, 2822, 2822/3351, 2823, 2823/3352, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2909, 2910, 2912, 2927, 2930, 2931, 2932, 2935
3	मजरा राम नगर ऊगू ग्रामीण	पूरब	2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2414, 2415, 2416, 2417, 2437, 2438, 2439, 2454, 2455, 2459, 2460, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515,

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
			2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2556/3374, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2590/1, 2590/2, 2913, 2920, 2921, 2923, 2924, 2925, 2926
4	ऊगू ग्रामीण	पश्चिम	1544, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2049, 2050, 2051, 2052, 2073/1, 2073/2, 2603, 2604, 2606, 2607, 2608, 2609, 2616, 2617, 2630, 2631, 2640, 2641, 2642, 2644, 2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2398/IX-1-2020-71T.A.-20, dated December 18, 2020:

No. 2398/IX-1-2020-71T.A.-20

Dated Lucknow, December 18, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) hereinafter referred to as the said Act and in partial modification of notification no. 2788(1)-T/IX-I-44-T(1)-70, dated May 26, 1972 and other previous notifications issued in this behalf for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Ugoo in district Unnao, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-I, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), and in partial modification of notification no. 2788(1)-T/IX-I-44-T(1)-70, dated May 26, 1972 and other previous notifications issued in this behalf the Governor having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Ugoo in district Unnao for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Ugoo in district Unnao

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Ugoo Rural	North	1957, 1993, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012, 2013/3368, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2085, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2095/3353, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2099/2, 2100, 2101, 2102, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2105, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2141, 2142, 2155/1, 2155/2, 2155/3, 2156, 2157, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2221, 2222, 2223, 2224, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2307, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2445, 2446, 2446/3356, 2447, 2448, 2449, 2452
2	Ganga Prasad Kheda, Ugoo Rural	South	1514, 1515, 1516, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681/1, 2681/2, 2681/3, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2702/3315, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2711/3380, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2724/3387, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, 2736, 2737, 2746, 2747, 2748, 2748/3365, 2749, 2749/3366, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2790/3314, 2790/3316, 2791, 2791/3317, 2792, 2793, 2794, 2795, 2808, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2820/3318, 2821, 2822, 2822/3351, 2823, 2823/3352, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2909, 2910, 2912, 2927, 2930, 2931, 2932, 2935
3	Majra Ram Nagar Ugoo Rural	East	2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2414, 2415, 2416, 2417, 2437, 2438, 2439, 2454, 2455, 2459, 2460, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545,

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
			2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2556/3374, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2590/1, 2590/2, 2913, 2920, 2921, 2923, 2924, 2925, 2926
4	Ugoo Rural	West	1544, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2049, 2050, 2051, 2052, 2073/1, 2073/2, 2603, 2604, 2606, 2607, 2608, 2609, 2616, 2617, 2630, 2631, 2640, 2641, 2642, 2644, 2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.